

श्री पार्श्वनाथ-जिन पूजा  
Śrī Pārśvanātha-Jina Pūjā

कविश्री 'पुष्पेन्दु'  
Kavi Śrī Puṣpēndu'

हे पार्श्वनाथ! हे अश्वसेन-सुत! करुणासागर तीर्थकर |  
हे सिद्धशिला के अधिनायक! हे ज्ञान-उजागर तीर्थकर ||  
हमने भावुकता में भरकर, तुमको हे नाथ! पुकारा है |  
प्रभुवर! गाथा की गंगा से, तुमने कितनों को तारा है ||  
हम द्वार तुम्हारे आये हैं, करुणा कर नेक निहारो तो |  
मेरे उर के सिंहासन पर, पग धारो नाथ! पधारो तो ||

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्र! अत्र अवतर! अवतर! संवौषट्! (आह्वानम्)

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्र! अत्र तिष्ठ! तिष्ठ! ठः! ठः! (स्थापनं)

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्र! अत्र मम सन्निहितो भव! भव! वषट्! (सन्निधिकरणम्)

Hē pārśvanātha! Hē aśvasēna-suta! Karuṇāsāgara tīrthaṅkara |  
Hē sid'dhaśilā kē adhināyaka! Hē jñāna-ujāgara tīrthaṅkara ||  
Hamanē bhāvukatā mēm bharakara, tumakō hē nātha! Pukārā hai |  
Prabhuvara! Gāthā kī gaṅgā sē, tumanē kitanōm kō tārā hai ||  
Hama dvāra tumhārē āyē hairi, karuṇā kara nēka nihārō tō |  
Mērē ura kē sinhāsana para, paga dhārō nātha! Padhārō tō ||

Ōm hrīm śrī pārśvanāthajinēndra! Atra avatara! avatara! sanvaṣaṭ! (Āhvānanam)

Ōm hrīm śrī pārśvanāthajinēndra! Atra tiṣṭha! tiṣṭha! tha! tha! (Sthāpanam)

Ōm hrīm śrī pārśvanāthajinēndra! Atra mama sannihitō bhava bhava Vaṣaṭ! (Sannidhikaraṇam)

(शंभु छन्द)

(Śambhu chanda)

मैं लाया निर्मल जलधारा, मेरा अंतर निर्मल कर दो |  
मेरे अंतर को हे भगवन! शुचि-सरल भावना से भर दो ||  
मेरे इस आकुल-अंतर को, दो शीतल सुखमय शांति प्रभो |  
अपनी पावन अनुकम्पा से, हर लो मेरी भव-भ्रांति प्रभो ||

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा । १।

Maiṁ lāyā nirmala jaladhārā, mērā antara nirmala kara dō |  
Mērē antara kō hē bhagavana! Śuci-sarala bhāvanā sē bhara dō ||  
Mērē isa ākula-antara kō, dō śītala sukhamaya śānti prabhō |  
Apanī pāvana anumkāpā sē, hara lō mērī bhava-bhrānti prabhō ||

Om hrīm śrī pārśvanāthajinēndrāya janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalam nirvapāmīti svāhā ||1||

प्रभु! पास तुम्हारे आया हूँ, भव-भव संताप सताया हूँ |  
तव पद-चर्चन के हेतु प्रभो! मलयागिरि चंदन लाया हूँ ||  
अपने पुनीत चरणाम्बुज की, हमको कुछ रेणु प्रदान करो |  
हे संकटमोचन तीर्थकर! मेरे मन के संताप हरो ||

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय संसारताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा । २।

Prabhu! Pāsa tumhārē āyā hūṁ, bhava-bhava santāpa satāyā hūṁ |  
Tava pada-carcana kē hētu prabhō! Malayāgiri candana lāyā hūṁ ||  
Apanē punīta caraṇāmbuja kī, hamakō kucha rēṇu pradāna karō |  
Hē saṅkaṭamōcana tīrthakara! Mērē mana kē santāpa harō ||

Om hrīm śrī pārśvanāthajinēndrāya sansāratāpa-vināśanāya candanam nirvapāmīti svāhā ||2||

प्रभुवर! क्षणभंगुर वैभव को, तुमने क्षण में ठुकराया है |  
निज तेज तपस्या से तुमने, अभिनव अक्षय पद पाया है ||  
अक्षय हों मेरे भक्ति भाव, प्रभु पद की अक्षय प्रीति मिले |  
अक्षय प्रतीति रवि-किरणों से, प्रभु मेरा मानस-कुंज खिले ||

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा । ३।

Prabhuvara! Kṣaṇabhaṅgura vaibhava kō tumanē kṣaṇa mēṁ ṭhukarāyā hai |  
Nija tēja tapasyā sē tumanē, abhinava akṣaya pada pāyā hai ||  
Akṣaya hōm mērē bhakti bhāva, prabhu pada kī akṣaya prīti milē |  
Akṣaya praṭīti ravi-kiraṇōm sē, prabhu mērā mānasa-kuṅja khilē ||

Om hrīm śrī pārśvanāthajinēndrāya akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā ||3||

यद्यपि शतदल की सुषमा से, मानस-सर शोभा पाता है |  
 पर उसके रस में फँस मधुकर, अपने प्रिय-प्राण गँवाता है ||  
 हे नाथ! आपके पद-पंकज, भवसागर पार लगाते हैं |  
 इस हेतु आपके चरणों में, श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं ||

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय कामबाण-विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Yadyapi śatadala kī suṣamā sē, mānasa-sara śōbhā pātā hai |  
 Para usakē rasa mēm pham̐sa madhukara, apanē priya-prāṇa gaṁvātā hai ||  
 Hē nātha! Āpakē pada-paṅkaja, bhavasāgara pāra lagātē hair̐ |  
 Isa hētu āpakē caraṇōṁ mēm, śrad'dhā kē sumana caṛhātē hair̐ ||  
 Ōm hrīm śrī pārsvanāthajinēndrāya kāmabāṇa-vidhvansanāya puṣpaṁ nirvapāmīti svāhā ||4||

व्यंजन के विविध समूह प्रभो! तन की कुछ क्षुधा मिटाते हैं |  
 चेतन की क्षुधा मिटाने में प्रभु! ये असफल रह जाते हैं ||  
 इनके आस्वादन से प्रभु! मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ |  
 इस हेतु आपके चरणों में, नैवेद्य चढ़ाने आया हूँ ||

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Vyañjana kē vividha samūha prabhō! Tana kī kucha kṣudhā miṭātē hair̐ |  
 Cētana kī kṣudhā miṭānē mēm prabhu! Yē asaphala raha jātē hair̐ ||  
 Inakē āsvādana sē prabhu! Mair̐ santuṣṭa nahīm hō pāyā hūṁ |  
 Isa hētu āpakē caraṇōṁ mēm, naivēdya caṛhānē āyā hūṁ ||  
 Ōm hrīm śrī pārsvanāthajinēndrāya kṣudhārōga-vināśanāya naivēdyaṁ nirvapāmīti svāhā ||5||

प्रभु! दीपक की मालाॐ से, जग-अंधकार मिट जाता है |  
 पर अंतर्मन का अंधकार, इनसे न दूर हो पाता है ||  
 यह दीप सजाकर लाए हैं, इनमें प्रभु! दिव्य प्रकाश भरो |  
 मेरे मानस-पट पर छाए, अज्ञान-तिमिर का नाश करो ||

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मोहंधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Prabhu! Dīpaka kī mālā'ōṁ sē, jaga-andhakāra miṭa jātā hai |  
 Para antarmana kā andhakāra, ina sē na dūra hō pātā hai ||  
 Yaha dīpa sajakara lā'ē hair̐, inamēm prabhu! Divya prakāśa bharō |  
 Mērē mānasa-paṭa para chā'ē, ajñāna-timira kā nāśa karō ||  
 Ōm hrīm śrī pārsvanāthajinēndrāya mōhāndhakāra-vināśanāya dīpaṁ nirvapāmīti svāhā ||6||

यह धूप सुगन्धित द्रव्यमयी, नभमंडल को महकाती है |  
 पर जीवन-अघ की ज्वाला में, ईंधन बनकर जल जाती है ||  
 प्रभुवर! इसमें वह तेज भरो, जो अघ को ईंधन कर डाले |  
 हे वीर विजेता कर्मों के! हे मुक्ति-रमा वरने वाले ||

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Yaha dhūpa sugandhīta dravyamayī, nabhamaṇḍala kō mahakāṭī hai |  
 Para jīvana-agma kī jvālā mēm, īndhana banakara jala jāṭī hai ||  
 Prabhuvara! Isamēm vaha tēja bharō, jō agha kō īndhana kara ḍālē |  
 Hē vīra vijētā karmōm kē! Hē mukti-ramā varanē vālē! ||

Ōm hrīm śrī pārśvanāthajinēndrāya aṣṭakarma-dahanāya dhūpaṁ nirvapāmīti svāhā ||7||

यों तो ऋतुपति ऋतु-फल से, उपवन को भर जाता है |  
 पर अल्प-अवधि का ही झोंका, उनको निष्फल कर जाता है ||  
 दो सरस-भक्ति का फल प्रभुवर! जीवन-तरु तभी सफल होगा |  
 सहजानंद-सुख से भरा हुआ, इस जीवन का प्रतिफल होगा ||

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Yōm tō ṛtupati ṛtu-phala sē, upavana kō bhara jāṭā hai |  
 Para alpa-avadhi kā hī jhōnkā, unakō niṣphala kara jāṭā hai ||  
 Dō sarasa-bhakti kā phala prabhuvara! Jīvana-taru tabhī saphala hōgā |  
 Sahajānanda-sukha sē bharā hu'ā, isa jīvana kā pratiphala hōgā ||

Ōm hrīm śrī pārśvanāthajinēndrāya mōkṣaphala-prāptayē phalaṁ nirvapāmīti svāhā ||8||

पथ की प्रत्येक विषमता को, मैं समता से स्वीकार करूँ |  
 जीवन-विकास के प्रिय-पथ की, बाधाओं का परिहार करूँ ||  
 मैं अष्ट-कर्म-आवरणों का, प्रभुवर! आतंक हटाने को |  
 वसु-द्रव्य संजोकर लाया हूँ, चरणों में नाथ! चढ़ाने को ||

ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Patha kī pratyēka viṣamatā kō, mair̥m samatā sē svīkāra karūṁ |  
 Jīvana-vikāsa kē priya-patha kī, bādhā'ōm kā parihāra karūṁ ||  
 Mair̥m aṣṭa-karma-āvaraṇōm kā, prabhuvara! Ātaṅka haṭānē kō |  
 Vasu-dravya sañjōkara lāyā hūṁ, caraṇōm mēm nātha! Carhānē kō |

Ōm hrīm śrī pārśvanāthajinēndrāya anarghyapada-prāptayē arghyaṁ nirvapāmīti svāhā ||9||

पंचकल्याणक – अर्घ्यावली  
Pañcakalyāṇaka - Arghyāvalī

(दोहा)

वामादेवी के गर्भ में, आये दीनानाथ ।  
चिर-अनाथ जगती हुई, सजग-समोद-सनाथ ॥

(Dōhā)

Vāmādēvī kē garbha mēm, āyē dīnānātha ।  
Cira-anātha jagatī hui, sajaga-samōda-sanātha ॥

(गीता छन्द)

(Gītā chanda)

अज्ञानमय इस लोक में, आलोक-सा छाने लगा ।  
होकर मुदित सुरपति नगर में, रत्न बरसाने लगा ॥  
गर्भस्थ बालक की प्रभा, प्रतिभा प्रकट होने लगी ।  
नभ से निशा की कालिमा, अभिनव उषा धोने लगी ॥

ॐ ह्रीं वैशाखकृष्ण-द्वितीयायां गर्भमंगल-मंडिताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।१।

Ajñānamaya isa lōka mēm, ālōka-sā chānē lagā ।  
Hōkara mudita surapati nagara mēm, ratna barasānē lagā ॥  
Garbhastha bālaka kī prabhā, pratibhā prakāṣṭa hōnē lagī ।  
Nabha sē niśā kī kālimā, abhinava uṣā dhōnē lagī ॥

Ōm hrīm vaiśākhakṛṣṇa-dvītīyāyām garbhamaṅgala-maṅḍitāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyam  
nirvapāmīti svāhā ॥1॥

द्वार-द्वार पर सज उठे, तोरण वंदनवार ।  
काशी नगरी में हुआ, पार्श्व-प्रभु अवतार ॥  
प्राची दिशा के अंग में, नूतन-दिवाकर आ गया ।  
भविजन जलज विकसित हुए, जग में उजाला छा गया ॥  
भगवान् के अभिषेक को, जल क्षीरसागर ने दिया ।  
इन्द्रादि ने है मेरु पर, अभिषेक जिनवर का किया ॥

ॐ ह्रीं पौष कृष्णएकादश्यां जन्ममंगल-मंडिताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।२।

Dvāra-dvāra para saja uṭhē, tōraṇa vandanaṅvāra |  
 Kāśī nagarī mēm hu'ā, pārśva-prabhu avatāra ||  
 Prācī diśā kē aṅga mēm, nūtana-divākara ā gayā |  
 Bhavijana jalaja vikasita hu'ē, jaga mēm ujālā chā gayā ||  
 Bhagavān kē abhiṣēka kō, jala kṣīrasāgara nē diyā |  
 Indrādi nē hai mēru para, abhiṣēka jinavara kā kiyā ||

Ōm hrīm pauṣa kṛṣṇa'ēkādaśyām janmamaṅgala-maṅḍitāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyam  
 nirvapāmīti svāhā ||2||

निरख अथिर संसार को, गृह-कुटुम्ब सब त्याग |  
 वन में जा दीक्षा धरी, धारण किया विराग ||  
 निज-आत्मसुख के स्रोत में, तन्मय प्रभु रहने लगे |  
 उपसर्ग और परीषहों को, शांति से सहने लगे ||  
 प्रभु की विहार वनस्थली, तप से पुनीता हो गई |  
 कपटी कमठ-शठ की कुटिलता, भी विनीता हो गई ||

ॐ ह्रीं पौषकृष्णैकादश्यां तपोमंगल-मंडिताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।३।

Nirakha athira sansāra kō, gṛha-kuṭumba saba tyāga |  
 Vana mēm jā dīkṣā dharī, dhāraṇa kiyā virāga ||  
 Nija-ātmasukha kē srōta mēm, tanmaya prabhu rahanē lagē |  
 Upasarga aura pariṣahōm kō, śānti sē sahanē lagē ||  
 Prabhu kī vihāra vanasthalī, tapa sē punītā hō gai |  
 Kapaṭī kamaṭha-śaṭha kī kuṭilatā, bhī vinītā hō gai ||

Ōm hrīm pauṣakṛṣṇaikādaśyām tapōmaṅgala-maṅḍitāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyam  
 nirvapāmīti svāhā ||3||

आत्मज्योति से हट गये, तम के पटल महान |  
 प्रकट प्रभाकर-सा हुआ, निर्मल केवलज्ञान ||  
 देवेन्द्र द्वारा विश्वहित, सम-अवसरण निर्मित हुआ |  
 समभाव से सबको शरण का, पंथ निर्देशित हुआ ||  
 था शांति का वातावरण, उसमें न विकृत विकल्प थे |  
 मानों सभी तब आत्महित के, हेतु कृत-संकल्प थे ||

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्ण-चतुर्थीदिने केवलज्ञान-प्राप्ताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।४।

Ātmajyōti sē haṭa gayē, tama kē paṭala mahāna |  
 Prakāṭa prabhākara-sā hu'ā, nirmala kēvalajñāna ||  
 Dēvēndra dvārā viśvahita, sama-avasaraṇa nirmīta hu'ā |  
 Samabhāva sē sabakō śaraṇa kā, pantha nirdēsīta hu'ā ||  
 Thā śānti kā vātāvaraṇa, usamēm na vikṛta vikalpa thē |  
 Mānōm sabhī taba ātmahita kē, hētu kṛta-saṅkalpa thē ||

Ōm hrīm caitrakr̥ṣṇa-caturthīdinē kēvalajñāna-prāptāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyaṁ nirvapāmīti  
 svāhā ||4||

युग-युग के भव-भ्रमण से, देकर जग को त्राण |  
 तीर्थकर श्री पार्श्व ने, पाया पद-निर्वाण ||  
 निर्लिप्त, आज नितांत है, चैतन्य कर्म-अभाव से |  
 है ध्यान-ध्याता-ध्येय का, किंचित् न भेद स्वभाव से||  
 तव पाद-पद्मों की प्रभु, सेवा सतत पाते रहें |  
 अक्षय असीमानंद का, अनुराग अपनाते रहें ||

ॐ ह्रीं श्रावणशुक्ल-सप्तम्यां मोक्षमंगल-मंडिताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।५।

Yuga-yuga kē bhava-bhramaṇa sē, dēkara jaga kō trāṇa |  
 Tīrthaṅkara śrī pārśva nē, pāyā pada-nirvāṇa ||  
 Nirlipta, āja nitānta hai, caitan'ya karma-abhāva sē |  
 Hai dhyāna-dhyātā-dhyēya kā, kiñcit na bhēda svabhāva sē ||  
 Tava pāda-padmōm kī prabhu, sēvā satata pātē rahēm |  
 Akṣaya asīmānanda kā, anurāga apanātē rahēm |

Ōm hrīm śrāvaṇaśukla-saptamyāṁ mōkṣamaṅgala-maṇḍitāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyaṁ  
 nirvapāmīti svāhā ||5||

वंदना-गीत

Vandanā-Gīta

(कव्वाली)

अनादिकाल से कर्मों का मैं सताया हूँ |  
 इसी से आपके दरबार आज आया हूँ ||  
 न अपनी भक्ति न गुणगान का भरोसा है |  
 दयानिधान श्री भगवान् का भरोसा है ||  
 इक आस लेकर आया हूँ कर्म कटाने के लिये |  
 भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिये ||१||

(गीता छन्द)

जल न चंदन और अक्षत पुष्प भी लाया नहीं ।  
 है नहीं नैवेद्य-दीप अरु धूप-फल पाया नहीं ॥  
 हृदय के टूटे हुए उद्गार केवल साथ हैं ।  
 और कोई भेंट के हित अर्घ्य सजवाया नहीं ॥  
 है यही फल फूल जो समझो चढ़ाने के लिये ।  
 भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिये ॥२॥

माँगना यद्यपि बुरा समझा किया मैं उग्रभर ।  
 किन्तु अब जब माँगने पर बाँधकर आया कमर ॥  
 और फिर सौभाग्य से जब आप-सा दानी मिला ।  
 तो भला फिर माँगने में आज क्यों रक्खूँ कसर ॥  
 प्रार्थना है आप ही जैसा बनाने के लिये ।  
 भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिये ॥३॥

यदि नहीं यह दान देना आपको मंजूर है ।  
 और फिर कुछ माँगने से दास ये मजबूर है ॥  
 किन्तु मुँह माँगा मिलेगा मुझको ये विश्वास है ।  
 क्योंकि लौटाना न इस दरबार का दस्तूर है ॥  
 प्रार्थना है कर्म-बंधन से छुड़ाने के लिए ।  
 भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिये ॥४॥

हो न जब तक माँग पूरी नित्य सेवक आयेगा ।  
 आपके पद-कंज में 'पुष्पेन्दु' शीश झुकायेगा ॥  
 है प्रयोजन आपको यद्यपि न भक्ति से मेरी ।  
 किन्तु फिर भी नाथ मेरा तो भला हो जायेगा ॥  
 आपका क्या जायेगा बिगड़ी बनाने के लिये ।  
 भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिये ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय जयमाला-पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

(Kavvālī)

Anādikāla sē karmōm kā mairm satāyā hūm̃ |  
 Isī sē āpakē darabāra āja āyā hūm̃ ||  
 Na apanī bhakti na guṇagāna kā bharōsā hai |  
 Dayānidhāna śrī bhagavān kā bharōsā hai ||  
 Ika āsa lēkara āyā hūm̃ karma kaṭānē kē liyē |  
 Bhēṅṭa mairm kucha bhī nahīm lāyā caṛhānē kē liyē ||1||

(Gītā chanda)

Jala na candana aura akṣata puṣpa bhī lāyā nahīm |  
 Hai nahīm naivēdya-dīpa aru dhūpa-phala pāyā nahīm ||  
 Hṛdaya kē ṭūṭē hu'ē udgāra kēvala sātha hairm |  
 Aura kōi bhēṅṭa kē hita arghya sajavāyā nahīm ||  
 Hai yahī phala phūla jō samajhō caṛhānē kē liyē |  
 Bhēṅṭa mairm kucha bhī nahīm lāyā caṛhānē kē liyē ||2||

Mām̃ganā yadyapi burā samajhā kiyā mairm umrabhara |  
 Kintu aba jaba mām̃ganē para bām̃dhakara āyā kamara ||  
 Aura phira saubhāgya sē jaba āpa-sā dānī milā |  
 Tō bhalā phira mām̃ganē mēm̃ āja kyōm̃ rakkhūm̃ kasara ||  
 Prārthanā hai āpa hī jaisā banānē kē liyē |  
 Bhēṅṭa mairm kucha bhī nahīm lāyā caṛhānē kē liyē ||3||

Yadi nahīm yaha dāna dēnā āpakō mañjūra hai |  
 Aura phira kucha mām̃ganē sē dāsa yē majabūra hai ||  
 Kintu mum̃ha-mām̃gā milēgā mujhakō yē viśvāsa hai |  
 Kyōnki lauṭānā na isa darabāra kā dastūra hai ||  
 Prārthanā hai karma-bandhana sē chuṛānē kē li'ē |  
 Bhēṅṭa mairm kucha bhī nahīm lāyā caṛhānē kē liyē ||4||

Hō na jaba taka mām̃ga pūrī nitya sēvaka āyēgā |  
 Āpakē pada-kañja mēm̃ puṣpēndu' śīśa jhukāyēgā ||  
 Hai prayōjana āpakō yadyapi na bhakti sē mērī |  
 Kintu phira bhī nātha mērā tō bhalā hō jāyēgā ||  
 Āpakā kyā jāyēgā bigaṛī banānē kē liyē |

**Bhēṅṭa mair̥m kucha bhī nahīm lāyā caṅhānē kē liyē ||5||**

*Ōm hrīm śrīpārśvanāthajinēndrāya jayamālā-pūrṇārgḥyam nirvapāmīti svāhā |*

*॥ इत्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपेत् ॥*

*|| Ityāśīrvāda: puṣpāñjalim kṣipēt ||*

\*\*\*\*\*

24/01/15